

July 8, 2019

Online intimation/submission

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 505200

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Plot No. C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400 051
Symbol: EICHERMOT

Dear Sir/Madam,

Ref: Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Subject: 37th Annual General Meeting- Newspaper Advertisement

Further to our letter dated July 6, 2019, with regard to Annual Report for the Financial Year 2018-19 and notice of the 37th Annual General Meeting of the Company and in compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published today i.e. July 8, 2019, in Business Standard, English (All Editions) and Business Standard, Hindi (New Delhi Edition), confirming the completion of dispatch of Notice of the 37th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year 2018-19 and intimating book closure and other details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The newspaper publications are also available on the website of the Company.


This is for your information and records.

Thanking you,
For Eicher Motors Limited



Manhar Kapoor
General Counsel & Company Secretary

Encl: a.a.



EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877

पंजीकृत कार्यालय : थर्ड फ्लोर-सिलेक्ट सिटीवॉक, ए-3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली-110 017

कार्पोरेट कार्यालय : #96, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122 001, हरियाणा
फोन : +91 124 - 4415600

वेबसाइट : www.eichermotors.com,

ई-मेल : investors@eichermotors.com

37वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा बही वंदी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आयशर मोटर्स लिमिटेड के सदस्यों की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 01 अगस्त, 2019 को श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में पूर्वा. 10.00 बजे बैठक की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जानी निर्धारित है।

कम्पनी शनिवार, 06 जुलाई, 2019 को पूर्ण कर चुकी है।

- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का भौतिक प्रेषण उन सदस्यों को जिनकी ई-मेल आईडीज डिपॉजिटरीज या कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं हैं; तथा
- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट युक्त 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई-मेल प्रेषण उन सदस्यों को जिनकी ई-मेल आईडीज डिपॉजिटरीज या कम्पनी के पास पंजीकृत है।

उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com अथवा कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com से डाउनलोड की जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथासंशोधित के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध विषयों पर, नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से वोट डालने ('रिमोट ई-वोटिंग') की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

एजीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में विच्छेदन तिथि अर्थात् 26 जुलाई, 2019 को मौजूद होगा, केवल वही ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोट डालने की सुविधा पाने का हकदार होगा। सदस्यों का वोटिंग का अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा विच्छेदन तिथि को धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा। सदस्य वोट डालने के लिए कोई एक विधि अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग अथवा मतपत्र प्रक्रिया चुन सकते हैं। ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई सदस्य दोनों विधियों से वोट डालता है तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाला गया वोट वैध और मतपत्र प्रक्रिया द्वारा डाला गया वोट अवैध मान्य होगा।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 29 जुलाई, 2019 (प्रातः 09.00 बजे) आरंभ होगी तथा बुधवार, 31 जुलाई, 2019 (सायं 05.00 बजे) समाप्त होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के पश्चात रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, उस सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर हासिल करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात् 25 जुलाई, 2019 को शेयरधारक है, evoting@nsdl.co.in तथा investors@eichermotors.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

अनुदेशों तथा रिमोट ई-वोटिंग के ढंग, जिसमें ई-वोटिंग के लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड शामिल हैं, के लिए कृपया एजीएम की सूचना में नोट्स सेवशन देखें।

वोटिंग का परिणाम तथा संवीक्षक की रिपोर्ट, अन्य के साथ, स्टॉक एक्सचेंज को भेजी जाएगी जहां कम्पनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं तथा कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

किसी संदेह की स्थिति में, आप www.evoting@nsdl.com के डाउनलोड सेवशन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बर : 1800-222-990 पर कॉल करें। वोटिंग के संबंध में किसी संदेह अथवा शिकायत की स्थिति में, शेयरधारक सम्पर्क करें : श्री डी.एस. मेहता-टीम प्रबंधक, 96, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा (सम्पर्क हेतु नंबर 0124-7102968, ई-मेल : investors@eichermotors.com)।

कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 26 जुलाई, 2019 से 01 अगस्त, 2019 (दोनों तिथियां शामिल) तक वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभों, यदि एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, की हकदारी के निर्धारण हेतु बंद रहेंगी।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः एनएसई - www.nseindia.com और बीएसई - www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते आयशर मोटर्स लिमिटेड

हस्ता/-

तिथि : 06 जुलाई, 2019

मनहर कपूर

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा

जनरल काउन्सिल एवं कम्पनी सेक्रेटरी

EICHER
EICHER MOTORS LIMITED

CIN : L34102DL1982PLC129877
 Registered Office: 3rd Floor-Select Citywalk, A-3 District Centre,
 Saket, New Delhi - 110 017
 Corporate Office: #96, Sector 32, Gurugram - 122 001, Haryana
 Telephone: +91 124-4415600
 Website: www.eichermotors.com,
 Email: investors@eichermotors.com

**Notice of the 37th Annual General Meeting
 and Book Closure**

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of Eicher Motors Limited is scheduled to be held on Thursday, August 1, 2019 at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi - 110003 at 10:00 A.M. to transact the businesses as set out in the notice of the AGM.

The Company has on Saturday, July 6, 2019, completed:

1. the physical dispatch of notice of the 37th AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2019 to the members whose email IDs are not registered with the Depositories or the Company; and
2. sending emails through National Securities Depository Limited (NSDL) containing notice of the 37th AGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2019 to the members whose email IDs are registered with the Depositories or the Company

The aforesaid Notice and Annual Report can be downloaded from the website of NSDL www.evoting.nsdl.com or website of Company www.eichermotors.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members the facility to exercise their right to vote on the business items as set out in the notice of the AGM, from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"), through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL).

Facility for voting through ballot process shall be made available at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of July 25, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members can opt for only one mode of voting i.e. either remote e-voting or ballot process. The members who have cast their vote by e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case any Member casts vote through both the modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done at the AGM through ballot process will be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on Monday, July 29, 2019 (9:00 A.M.) and ends on Wednesday, July 31, 2019 (5:00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of AGM notice and holds shares as on the cut-off date i.e. July 25, 2019, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and investors@eichermotors.com. If a member is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for voting.

For instructions & manner of remote e-voting including Login ID and Password for remote e-voting, kindly refer to the notes section in the Notice of AGM.

The result of voting along with the report of the Scrutinizer shall be submitted, inter alia, with the Stock Exchanges where securities of the Company are listed and shall be displayed on the Company's website www.eichermotors.com and NSDL website www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. In case of any queries or grievances relating to voting, the Shareholders may contact Mr. D.S Mehta-Team Manager, at 96, Sector 32, Gurgaon-122001, Haryana (Contact No. 0124-7102968, E-mail: investors@eichermotors.com).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 26, 2019 to August 1, 2019 (both days inclusive) for determining the entitlement of the shareholders to the dividend, if approved by the shareholders in the AGM, for the Financial Year 2018-19.

The above information is also available on Company's website www.eichermotors.com and also on the website of stock exchanges i.e. NSE - www.nseindia.com and BSE - www.bseindia.com

Date : July 6, 2019
 Place : Gurugram, Haryana

For Eicher Motors Limited
 Sd/-
Manhar Kapoor
 General Counsel & Company Secretary